

  
**भारत राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2001 (माघ 14, 1922)  
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY FEBRUARY 3, 2001 (MAGHA 14, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2  
[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 07 दिसम्बर, 2000

सं० ए०-35011/52/96-प्रशासन-श्री एम० जे० जोताफ द्वारा धारित 'आन्तरिक वितीय सलाहकार' के पद-नाम को उनके व्यक्तिगत समायोजन के तौर पर 29 सितम्बर, 2000 में प्रभावी रूप से आगामी आदेशों तक बदल कर एतद्द्वारा 'संयुक्त सचिव एवं वितीय सलाहकार' के पद-नाम में अभिविष्ट किया जाता है।

मिल्ली राम अवसर सचिव (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी, 2001

सं० आर० एस-8(ii)/2001/3-कार्मिक-राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित संसदाय वृत्तलेखक ग्रेड II को 19 जनवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से जगामा आदेशों तक इस सचिवालय में संसदाय वृत्तलेखक ग्रेड-I के समान

में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है:—

1. श्री एन० बामू राव
2. श्री उधम सिंह यादव

2. श्री उधम सिंह यादव की नियुक्ति श्री के० एल० गांधी, संसदाय वृत्तलेखक ग्रेड-I का प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर है।

अनन्ना एन० सरना, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2001

सं० पी०एफ० 2091 (3)/ए०एन०-1/जी०एन०-4521/2000 डा० डी० के सिंह, सहायक निदेशक (टाइपिंग) को दिनांक 1 जनवरी, 2001 (पूर्वार्द्ध) में इस सचिवालय में कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद

महाजन) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2001

सं० ए-19013/2/97-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, सुश्री अर्चना पाण्डेय, आईसी एवं सीईएस (85), उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय को 9 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 29-7-2002 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक नियुक्त करते हैं।

राज सिंह, उप सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2001

सं० 11(5)/2000-कार्मिक (i) —राष्ट्रपति एतद्वारा श्री पी० श्रीनिवास राव (कर्मचारी कोड 3014) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी० के पद पर 5100-150-5700-200-6300 रुपये के वेतनमान (संशोधन पूर्व) में तत्काल स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।

कु० सुब्बैया, निदेशक (कार्मिक)

सं० 11(5)/2000-कार्मिक (ii) —राष्ट्रपति एतद्वारा श्री एच० सी० नोटियाल (कर्मचारी कोड 3155) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ० के पद

पर 4500-150-5700 रुपये के वेतनमान (संशोधन पूर्व) में तत्काल स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।

कु० सुब्बैया, निदेशक (कार्मिक)

सं० 11(5)/2000-कार्मिक (iii) —राष्ट्रपति एतद्वारा डा० सुरेश चन्द गुप्ता (कर्मचारी कोड 2847) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ० के पद पर 4500-150-5700 रुपये के वेतनमान (संशोधन पूर्व) में तत्काल स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।

कु० सुब्बैया, निदेशक (कार्मिक)

सं० 11(5)/2000-कार्मिक (iv) —राष्ट्रपति एतद्वारा श्री के० एस० रंगनाथन (कर्मचारी कोड 2969) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ० के पद पर 4500-150-5700 रुपये के वेतनमान (संशोधन पूर्व) में तत्काल स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।

कु० सुब्बैया, निदेशक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री विपुल शर्मा, कर्मचारी कोड सं० 1681, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, लखनऊ में वैज्ञानिक-डी के पद से त्यागपत्र दिनांक 10-11-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जनवरी 2001

सं० 16(04)/2000-का० प्र०-11—राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित अधिकारियों को समीक्षा के आधार पर पदोन्नति के रूप में दिनांक 1-1-2001 पूर्वाह्न अथवा कार्य ग्रहण की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, उनके नाम के सामने दर्शाये उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया है :-

| क्रम सं० | नाम तथा पदनाम                     | तैनाती का स्थान                                | पदोन्नत पद तथा वेतनमान |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                 | 3                                              | 4                      |
| 1.       | श्री सी० के० वर्मा<br>वैज्ञानिक ई | ई० आर० टी० एल० (डब्ल्यू०), वैज्ञानिक एक मुम्बई | रुपये 16,400-20,000/—  |
| 2.       | श्री ए० के० धर<br>वैज्ञानिक डी    | ई० आर० टी० एल० (ईस्ट), वैज्ञानिक ई कलकत्ता     | रुपये 14,300-18,300/—  |

| 1   | 2                                       | 3                                      | 4                                  |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 3.  | श्री सुवेन्दू दास<br>वैज्ञानिक डी       | ई० आर० टी० एल० (ईस्ट)<br>कलकत्ता       | वैज्ञानिक ई<br>रु० 14,300—18,300   |
| 4.  | श्री टी० महेन्द्रन<br>वैज्ञानिक डी      | ई० टी० डी० सी०, बेंगलूर<br>—यथोपरि—    | —यथोपरि—                           |
| 5.  | श्री बी० सीहलीगंप्पा,<br>वैज्ञानिक डी   | ई० आर० टी० एल० (साउथ)<br>तिरुन्नथापुरम | —यथोपरि—                           |
| 6.  | सुश्री पी० आर० पद्मा,<br>वैज्ञानिक डी   | —यथोपरि—                               | —यथोपरि—                           |
| 7.  | सुश्री लता के० मूर्ति,<br>वैज्ञानिक डी  | ई० आर० टी० एल० (नार्थ)<br>नई दिल्ली    | —यथोपरि—                           |
| 8.  | श्री ए० के० चाबला,<br>वैज्ञानिक डी      | —यथोपरि—                               | —यथोपरि—                           |
| 9.  | श्री जे० पी० बत्सा,<br>वैज्ञानिक डी     | ई० आर० टी० एल० (वेस्ट)<br>मुम्बई       | —यथोपरि—                           |
| 10. | श्री आर० सी० ठाकुर,<br>वैज्ञानिक डी     | —यथोपरि—                               | —यथोपरि—                           |
| 11. | श्री अनुपम गुप्ता,<br>वैज्ञानिक डी      | ई० टी० डी० सी०, जयपुर                  | —यथोपरि—                           |
| 12. | श्री आजाद वर्मा,<br>वैज्ञानिक डी        | ई० टी० डी० सी०, हैदराबाद               | —यथोपरि—                           |
| 13. | श्री जी० विष्णाकरबल्लू,<br>वैज्ञानिक डी | ई० टी० डी० सी०, मोहाली                 | —यथोपरि—                           |
| 14. | श्री ओम प्रकाश कपूर,<br>वैज्ञानिक डी    | ई० टी० डी० सी०, गोवाहाटी               | वैज्ञानिक डी<br>रुपय 12000—16500   |
| 15. | श्री बी० आर० मेरी,<br>वैज्ञानिक सी      | सी० ई० टी० डी० सी०, चेन्नई             | —यथोपरि—                           |
| 16. | श्री सी० चोक्कानाथन,<br>वैज्ञानिक सी    | सी० ई० टी० डी० सी०, चेन्नई             | —यथोपरि—                           |
| 17. | सुश्री के० अरुलसेलवी,<br>वैज्ञानिक सी   | ई० आर० टी० एल० (नार्थ)<br>नई दिल्ली    | —यथोपरि—                           |
| 18. | श्री डी० के० गुलाटी,<br>वैज्ञानिक सी    | ई० आर० टी० एल० (नार्थ)<br>नई दिल्ली    | वैज्ञानिक डी<br>रुपये 12000—16500  |
| 19. | सुश्री आशा नांगिया,<br>वैज्ञानिक सी     | ई० आर० टी० एल० (नार्थ)<br>नई दिल्ली    | —यथोपरि—                           |
| 20. | श्री पी० के० बास<br>वैज्ञानिक सी        | ई० आर० टी० एल० (वेस्ट),<br>मुम्बई      | —यथोपरि—                           |
| 21. | श्री अबुल मोएद,<br>वैज्ञानिक सी         | ई० आर० टी० एल० (वेस्ट),<br>मुम्बई      | —यथोपरि—                           |
| 22. | श्री बसन्त के० वासनीक,<br>वैज्ञानिक सी  | ई० आर० टी० एल० (ईस्ट)<br>कलकत्ता       | वैज्ञानिक सी<br>रुपये 10,000—15200 |

| 1   | 2                                         | 3                                     | 4                                     |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 24. | श्री के० एस० शाहजी,<br>वैज्ञानिक बी       | ई० आर० टी० एन (साउथ),<br>तिरुवनथापुरम | वैज्ञानिक सी<br>रुपये 10,000—15,200/- |
| 25. | श्री धर्मवीर सिंह,<br>वैज्ञानिक बी        | ई० आर० टी० एन० (नार्थ)<br>नई दिल्ली   | —यथोपरि—                              |
| 26. | श्री शिव प्रसाद,<br>वैज्ञानिक बी          | —यथोपरि—                              | —यथोपरि—                              |
| 27. | श्री प्रहलाद गुप्ता,<br>वैज्ञानिक बी      | —यथोपरि—                              | —यथोपरि—                              |
| 28. | श्री जितेन्द्र सहगन,<br>वैज्ञानिक बी      | —यथोपरि—                              | —यथोपरि—                              |
| 29. | श्री विमोद के० धर,<br>वैज्ञानिक बी        | ई० आर० टी० एन० (वेस्ट),<br>मुम्बई     | —यथोपरि—                              |
| 30. | श्री चैतन आर० कंधालय<br>वैज्ञानिक बी      | ई० आर० टी० एन०, (वेस्ट),<br>मुम्बई    | —यथोपरि—                              |
| 31. | श्री मकरन्द बी० देशपाण्डे<br>वैज्ञानिक बी | ई० आर० टी० एन० (वेस्ट),<br>मुम्बई     | —यथोपरि—                              |
| 32. | श्री जगन्मोहन गव,<br>वैज्ञानिक बी         | ई० टी० डी० सी०, हैदराबाद              | —यथोपरि—                              |

ए० के० चावला, संयुक्त निदेशक

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं० ए० 20012/2/94-प्रशा०-II—योजना आयोग के दिनांक 14-11-2000 की अधिसूचना सं० ए०-12025/4/99-प्रशा०-II द्वारा योजना आयोग के नियमित वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (परियोजना मूल्यांकन) श्री श्याम सिंह की योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (महिला कार्यक्रम) के पद पर की गई नियुक्ति रद्द कर दी गई है।

एम० एल० खेत्रपाल, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2000

सं० ए०-12025/3/2000-प्रशा०-II—योजना आयोग की दिनांक 22/6/2000 की अधिसूचना सं० ए०-12025/12/98-प्रशा०-II के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) श्री छोटे लाल की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को, योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र) के रूप में, दिनांक 21/11/2000 से छः माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2 यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता हेतु दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एम० एल० खेत्रपाल, अवर सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2000

10 ए०-12025/4/99-प्रशा०-II—योजना आयोग की दिनांक 16-5-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, श्री एम० जोसेफ यूनियन राज, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (परियोजना मूल्यांकन) योजना आयोग, की योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 1-12-2000 से छः माहों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति वरिष्ठता आदि हेतु कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एम० एल० खेत्रपाल, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2000

सं० ए-20012/15/86-प्रशा० 2—अधिवारिता की आयु प्राप्त होने पर श्री जे० जी० गांधी, योजना आयोग में आई० ई०एस० (तदर्थ) के ग्रेड—IV में अनुसंधान अधिकारी, दिनांक 31-12-2000 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एस० एल० खेत्रपाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० एफ-6 (1817) 2001-प्रशासन-1—रोटेशन पालसी के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/28/2000-ई०ओ० (एम०एम० 1) के द्वारा वाणिज्य विभाग से अपने स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप वाणिज्य विभाग में सी० एस०एस० के उप सचिव श्री जी० पी० ग़ोवर ने दिनांक 01-01-2001 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में उप सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

के० के० छात्रड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2001

सं० ए-12022/1/2000-प्रशा०—IV—आर्थिक कार्य विभाग के कार्यालय आदेश सं० 13015/1/97-आईईएस दिनांक 28-9-2000 के तहत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) में तैनाती के परिणामस्वरूप श्री एच के० नस्कर आई ई एस (तदर्थ) के कनिष्ठ समय-मान स्तर अधिकारी ने क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कलकत्ता में 8000-275-13,500 रु० के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद का कार्य-भार दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 की पूर्वाह्न से ग्रहण कर लिया है।

एच० आर० गौड़, अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

(विधि आयोग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 2000

सं० ए-12024/1/99-एल०सी०— संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, विधि आयोग की उप विधि अधिकारी श्रीमती पवन शर्मा को सीधी भर्ती के आधार पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक विधि आयोग, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में, रु० 14300-400-18300 के वेतनमान में, अपरविधि अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति विधि आयोग की डा० (कु०) मुकुलिता विजय-वर्गीय, उप विधि अधिकारी की केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,

प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ० ए० 2368/2000 पर पारित होने वाले आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

जे० पी० ग़ोवर, अवर सचिव

कम्पना कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० पी०एफ०जी० (816)/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति जी ने श्री बी० गोविंदराजन, आईएएस (आ० प्र० 1967) को 31-12-2000 के अपराह्न से कम्पनी कार्य विभाग, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्त किया है।

सनपाल, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2001

सं० 1-14011/6/2000-आई०पी०एम०-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम, 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं। ये नियुक्तियां इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | जन्मतिथि |
|----------|----------------|----------|
|----------|----------------|----------|

सर्वश्री

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. आर० बी० जांटोगिया | 14-01-1958 |
| 2. बी० के० श्रीमाली  | 26-08-1952 |

2 उपरोक्त अधिकारियों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में श्री एस० एस० त्रिवेदी द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 582/97, श्री आर० डी० मंकाडिया द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 7496/97 एवं श्री एच० जी० पटेल तथा अन्य द्वारा दायर एस० सी० ए० संख्या 9286/97 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन हैं।

आर० के० मित्रा, उप सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2001

नई दिल्ली, दिनांक

2001

सं० 1-14011/12/2000-आ० पी० एस०-1-राष्ट्र-  
पति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम,  
1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित  
भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9  
के उप-नियम (1) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों  
को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं  
तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के  
नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग  
प्रदान करने हैं। ये नियुक्तियाँ इस अधिसूचना के जारी होने  
की तिथि से प्रभावी होंगी।

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम  | जन्मतिथि   |
|-------------|-----------------|------------|
| सदस्य       |                 |            |
| 1.          | जी० डी० लखानी   | 11-06-1947 |
| 2.          | के० के० लोहानी  | 02-10-1952 |
| 3.          | एम० के० मुद्गल  | 07-10-1954 |
| 4.          | एम० एस० कंबार   | 07-02-1955 |
| 5.          | जी० पी० ऊके     | 28-04-1955 |
| 6.          | एल० एल० अहीरवार | 01-06-1954 |

आर० के० मित्रा, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० 14016/43/90-यू० टी० एस०-11-दिल्ली,  
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव  
और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा, 1996 के नियम  
10 के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम 2 के खण्ड  
(ख) के अन्तर्गत संयुक्त सचिव (मध्य राज्य क्षेत्र) गृह  
मंत्रालय, एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल  
प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर दिल्ली,  
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव  
और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा के ग्रेड II में  
नियुक्त करते हैं :-

1. श्री पी० सी० चतुर्वेदी
2. श्री वी० के० एम० चौहान
3. मनजीत राय
4. श्री आर० टी० एल० डीसूजा
5. श्री एच० आर० सपरा
6. श्री आर० पी० बरारिया
7. श्री बी० के० मल्होत्रा
8. श्री एच० सी० सलूजा
9. श्री आर० सी० गुप्ता
10. श्री ब्रह्मपाल सिंह (एस० सी०)
11. श्री चन्द्रमान (एस० सी०)

एन० जे० थामस, अवर सचिव

सं० ए० 32014/5/99-प्रशा० 1 (क)-राष्ट्रपति  
केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा के निम्नलिखित प्रधान  
निजी सचिवों की नियुक्ति को वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव  
(रु० 12,000-16,500) के रूप में तदर्थ आधार पर  
30-06-2001 तक के लिये अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान  
निजी सचिवों के मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो,  
तक के लिये निरन्तर करते हैं।

| क्रम सं० | नाम                      |
|----------|--------------------------|
| सर्वश्री |                          |
| 1.       | जे० एन० मखीजा            |
| 2.       | पी० डी० भारद्वाज         |
| 3.       | वी० एम० बेदी             |
| 4.       | श्रीमती आर० के० केव्हानी |
| 5.       | एस० रामाकृष्णन           |
| 6.       | जे० पी० जुनेजा           |
| 7.       | पी० के० जाली             |

पी० वी० शिवरामन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2001

सं० 14020/5/2000-ए०डी० (सी०डी०) राष्ट्रपति  
श्री दिवाकर प्रसाद, भारतीय पुलिस सेवा (एच०पी०:68) को  
1-12-2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए 22,400-  
525-24,500 रुपये के वेतनमान में महानिदेशक नागरिक  
सुरक्षा के बतौर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) उमा गोयल, निदेशक (सी०एस०)

मंसदीय राजभाषा समिति

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं० ए-20012/14/2000-समिति-6-राष्ट्रपति जी  
कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निवेशालय  
प्रधान कार्यालय, एन० एच०-IV, फरीदाबाद के सहायक  
निदेशक (राजभाषा) श्री दिनेश कुमार पाण्डेय को दिनांक  
14-12-2000 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक संसदीय  
राजभाषा समिति सचिवालय में अवर सचिव (अनुसन्धान)  
(वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200) के पद पर  
प्रतिनियुक्ति के आधार पर महर्षि नियुक्त करते हैं।

हरि शंकर सिंह, अवर सचिव (प्रशासन)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० 14015/14/2000-अ० भा० से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 14-9-2000 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा महाराष्ट्र संवर्ग में 2000 के दौरान 10 मौजूबा रिक्तियों हेतु तैयार की गई महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली प्रथम सूची को अनुमोदित कर दिया है :—

| क्रम सं० | नाम                                  | जन्म तिथि  |
|----------|--------------------------------------|------------|
| सर्वश्री |                                      |            |
| 1.       | आर० एल० पोपलवार                      | 15-02-1958 |
| 2.       | एम० एस० चौधरी                        | 22-04-1954 |
| 3.       | बी० एस० पाण्डे                       | 25-10-1943 |
| 4.       | एम० एन० कावडे (अ० जा०)               | 31-12-1949 |
| 5.       | एस० वी० पाटिल                        | 10-02-1953 |
| 6.       | वी० एस० नहाता                        | 01-06-1953 |
| 7.       | बी० ओय० बाँखडे                       | 01-07-1953 |
| 8.       | एम० एस० कामबले (अ० जा०)<br>(देवनिकर) | 18-09-1953 |
| 9.       | बी० के० नायक                         | 24-10-1948 |
| 10.      | आर० एन० जोशी                         | 26-10-1954 |

आर० बैद्यनाथन, अवर सचिव

दिनांक 16 जनवरी 2001

सं० 14015/14/2000-अ० भा० से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) आर० एल० मोपलवार (2) एम० एस० चौधरी (3) बी० एस० पाण्डे (4) एम० एन० कावडे (5) एस० वी० पाटिल (6) वी० एस० नहाता (7) बी० ओय० बाँखडे (8) एम० एस० कामबले (देवनिकर) (9) बी० के० नायक तथा (10) आर० एन० जोशी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन महाराष्ट्र संवर्ग में आबंटित करते हैं।

आर० बैद्यनाथन, अवर सचिव

सं० 14015/1/2000-अ० भा० से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (2) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 30-11-2000 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा गुजरात संवर्ग में 2000 के दौरान दो मौजूबा रिक्तियों हेतु तैयार की गुजरात गैर-राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) डी० एच० ब्रमभट्ट (जन्म-तिथि : 08-03-1954) तथा (2) डी० के० रावल (जन्म-तिथि : 13-03-1955) के नामों वाली प्रथम सूची को अनुमोदित कर दिया है।

आर० बैद्यनाथन, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2001

सं० 14015/1/2000-अ० भा० से०-1 —भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों सर्वश्री (1) डी० एच० ब्रमभट्ट तथा (2) डी० के० रावल, को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्ति करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन गुजरात संवर्ग में आबंटित करते हैं।

आर० बैद्यनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2001

सं० 13011/61/96-अ० भा० से० (1):—केन्द्रीय सरकार, इस विभाग के दिनांक 11 जनवरी, 2001 के आदेश सं० 13011/61/96-अ० भा० से० (1) के अनुसरण में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 12(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री डी० अनिल को भारतीय प्रशासनिक सेवा में तत्काल प्रभाव से नेवामुक्त करती है।

सुधीर त्रिपाठी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० 13017/17/2000-अ० भा० से०-1:—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 5(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों की सहमति से श्री अजय चौड़ा, भा० प्र० से० (आर० आर०: 98) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

## विदेश मंत्रालय

दिनांक 13 दिसम्बर, 2000

(पी० ए० 1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर, 2000

सं० क्यू/पी० ए० 1/50/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III अधिकारी श्री अतीश सिन्हा को 1 नवम्बर 2000 के पूर्वाह्न में आगामी आदेश दिये जाने तक सेवा के ग्रेड-II पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ?

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप अधिकारी ने 01-11-2000 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III पद छोड़ दिया है तथा उसी दिन पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II का पदभार संभाल लिया है।

रुचिरा कम्बोज,  
उप सचिव (एफ एस पी एवं संवर्ग)

सं० क्यू/पी० ए० 1/51/2000—भारत के राजदूतावास, स्टाकहोम में पूर्व राजदूत श्री सृणील दुबे अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 30 नवम्बर, 2000 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 में सेवानिवृत्त हो गये हैं।

रुचिरा कम्बोज,  
उप सचिव (एफ एस पी एवं संवर्ग)

सं० क्यू/पी० ए० 1/52/2000—भारत के राजदूतावास, लिस्बन में पूर्व राजदूत श्री एम० के० भटनागर अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 30 नवम्बर, 2000 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 में सेवानिवृत्त हो गये हैं।

रुचिरा कम्बोज,  
उप सचिव (एफ एस पी एवं संवर्ग)

दिनांक 11 दिसम्बर, 2000

सं० क्यू/पी० ए० 1/55/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में अधिकारी श्री एस० एस० ज्ञानी (सेवानिवृत्त) को 19 जून, 1992 के पूर्वाह्न से इसी सेवा के ग्रेड-III में सहर्ष नियुक्त करने हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV का पद 19 जून, 1992 में छोड़ दिया है और उसी तारीख से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रुचिरा कम्बोज,  
उप सचिव (एफ एस पी एवं संवर्ग)

सं० क्यू/पी० ए० 1/56/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में अधिकारी श्री विजय कुमार को 1 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने 1-12-2000 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार त्याग दिया है और उसी दिन के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुचिरा कम्बोज,  
उप सचिव (एफ एस पी एवं संवर्ग)

दिनांक 15 दिसम्बर, 2000

सं० क्यू/पी० ए० 1/57/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में अधिकारी श्री पी० एस० हेयर को 1 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक इसी सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने 1-12-2000 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद से कार्यभार त्याग कर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में इसी तारीख के पूर्वाह्न से कार्यभार संभाल लिया है।

रुचिरा कम्बोज, उप सचिव  
(एफ एस पी एवं संवर्ग)

सं० क्यू/पी० ए० 1/58/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में अधिकारी श्री एस० सी० एस० दोड़ी को 1 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक इसी सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने 1-12-2000 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I का पद संभाल लिया है।

रुचिरा कम्बोज, उप सचिव  
(एफ एस पी एवं संवर्ग)

सं० पी० ए० 1/59/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के अधिकारी श्री एस० के० उप्पल को 1 दिसम्बर 2000 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक इसी सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I में पदोन्नति होने पर I-12-2000 के पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II के पद से कार्यभार त्याग कर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I के पद पर इसी सेवा के पूर्वाह्न से कार्यभार संभाल लिया है।

रुचिरा कम्बोज, उप सचिव

सं०-डी III/460/सी० एफ० 53/2000:—भारत के राष्ट्रपति, नई दिल्ली में जाजिया के मानद कोसल के रूप में श्री कुलवीर सिंह ढींगरा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव में सहर्ष मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री कुलवीर सिंह ढींगरा के कोसली क्षेत्राधिकार में सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं।

पी० जे० मान, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर, 2000

सं०-21-पी० बी० 2000:—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर इस मंत्रालय के निजी सचिव श्री के० डी० शर्मा 30 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

चन्द्रशेखर रणदेव, प्रशासनिक अधिकारी

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2001

सं०-19012/2/2001:—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की वरिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी श्रीमती इन्द्रानी कौशल को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 03-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक सहायक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

आर० एम० यादव, अवर सचिव

सं०-ए०/ 19012/3/2001-प्रशा० 2—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एन० एफ० एस० जी० स्तर के अधिकारी श्री आर० के० परमार को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक अपर आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

आर० एम० यादव, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी, 2001

सं०-12011/11/2000-प्रशा० 2:—राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 26-07-2000 की समसंख्यक अधिसूचना 2-442 GI/2000

के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य निजी सचिवों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की दिनांक 01-01-2001 से 30-06-2001 तक छः माह की एक और अवधि के लिये अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ते हैं :—

क्रम सं० अधिकारी का नाम

सर्वश्री

1. ओ० पी० अरोडा
2. रमन चट्टा

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुनिपिक सेवा के वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा इस तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिये ग्रेड सम्बन्धी पात्रता हेतु वरिष्ठता के लिये नहीं गिना जायेगा तथा चयन सूची के व्यक्ति उपलब्ध होने पर उन्हें पदावनत कर दिया जायेगा।

आर० एम० यादव, अवर सचिव

सं०-ए० 12011/10/2000-प्रशा० 2:—राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 26-07-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में निम्नलिखित निजी सचिवों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में मुख्य निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को दिनांक 30-06-2001 तक अथवा चयन सूची के व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ते हैं।

क्रम सं० अधिकारी का नाम

सर्वश्री

1. के० एस० श्रीवास्तव
2. डी० बी० शर्मा
3. आर० चक्रवर्ती

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुनिपिक सेवा के मुख्य निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा इस तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिये ग्रेड सम्बन्धी पात्रता हेतु वरिष्ठता के लिये नहीं गिना जायेगा तथा चयन सूची के व्यक्ति उपलब्ध होने पर उन्हें पदावनत कर दिया जायेगा।

आर० एम० यादव, अवर सचिव

## व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2001

सं० पी० एफ० सी० ग० (356)-प्रशा०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री पवन कुमार को दिनांक 14-12-2000 के पूर्वाह्न से ब अगले आदेशों तक, भारतीय अखिल लेखा सेवा में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 10000-325-15200/- रु० के वेतनमान में उप निवेशक (लागत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती  
अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली 110 011, दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० ए-22013/1/96-संवर्ग-केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की आवर्तन नीति (रोटेशन पालसी) के अनुपालन में, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय शापन संख्या 31/17/2000-ई० ओ० (एम० एम०-1) में संप्रेषित किया गया है, अवर सचिव के स्तर के निम्नलिखित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने नीचे उनके नामों के सामने दर्शायी गई तिथियों से इस विभाग में ड्यूटी के लिये रिपोर्ट किया है :—

| क्र० सं०   | नाम         | कार्यभार ग्रहण की तिथि | उस विभाग का कार्यालय का नाम जिससे स्थानांतरित हो कर आए हैं |
|------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| (सर्वश्री) |             |                        |                                                            |
| 1.         | दीपक मल्ला  | 18-12-2000 (पूर्वा०)   | गृह मंत्रालय                                               |
| 2.         | बी० सी० पंत | 19-12-2000 (अप०)       | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय                        |
| 3.         | अनूप सेठ    | 21-12-2000 (पूर्वा०)   | संघ लोक सेवा आयोग                                          |

आ० कु० गांगुली  
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2001

सं० 12/24/92-ई० आई० एण्ड ई० पी०-शत्रु-सम्पत्ति संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित शत्रु-सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आयकर

समझौता आयोग, अतिरिक्त पीठ, कलकत्ता में सहायक श्री उत्पल चक्रवर्ती को तारीख 5 दिसम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक के लिए शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक के शाखा कार्यालय, कलकत्ता में सहायक शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

पी० के० दास  
निदेशक

## (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 2001

सं० ए-12023/1/98-व्य०-1-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के निम्नलिखित सहायकों को उनके सामने दी गई अवधि के लिए, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

| क्र० सं० | नाम                         | विभाग/कार्यालय जहाँ तैनात किया गया है। | अवधि में तक                |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| सर्वश्री |                             |                                        |                            |
| 1.       | के० एस० रावत औ० नी० और      | 1-9-2000 31-12-2000                    | सं० विभाग                  |
| 2.       | एम०एस०कटारिया               | आर्थिक सलाहकार वही का कार्यालय         | वही                        |
| 3.       | एस०के० श्रीवास्तव औ० नी० और | सं० विभाग                              | वही                        |
| 4.       | एम० सी० शर्मा               | व्याप प्रसंस्करण उद्योग विभाग          | वही                        |
| 5.       | अमरेन्द्र सिंह              | औ० नी० और सं० विभाग                    | वही                        |
| 6.       | आर०के० श्रीवास्तव औ० नी० और | सं० विभाग                              | वही                        |
| 7.       | एम०पी० चोपड़ा               | विकास आयुक्त (ल०उ०) का कार्यालय        | वही 18-11-2000 (पूर्वाह्न) |

2. उपर्युक्त आदेशों के तहत की गई नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इनमें संबंधित अधिकारियों को वीर्धवाधि आधार पर उन्ही पदों पर बने रहने अथवा उसी ग्रेड में नियमितीकरण का अथवा उस आधार पर वरिष्ठता, आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा सरकार के पास, बिना कोई कारण बताए, अथवा संबंधित अधिकारी को कोई नोटिस आदि दिये बिना इन तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रमिला राघवेन्द्रन, अवर सचिव

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2001

सं० ए-32013/1/98-प्रशा०—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी कार्यालय के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई० ओ० (एम० एम०-1) के तहत सरकार की रोटेशन नीति के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से स्थानांतरित होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्री प्रकाश चन्द को दिनांक 30 नवम्बर, 2000 (अपराह्न) से अगले आदेश तक कोयला मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

सं० ए-32013/1/98-प्रशा०—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी कार्यालय के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई० ओ० (एम० एम०-1) के तहत सरकार की रोटेशन नीति के अनुसरण में राजस्व विभाग से स्थानांतरण होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्री लखबीर सिंह को दिनांक 1 दिसम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक कोयला मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

दिनांक, 12 जनवरी, 2001

सं० ए-32013/1/98-प्रशा०—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी कार्यालय के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई० ओ० (एम० एम०-1) के तहत सरकार की रोटेशन नीति के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग से स्थानांतरण होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्रीमती पार्वती कौटिया को दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक कोयला मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 2000

सं० एस० एम०/01/001/2000—राष्ट्रपति श्री आशीष कौशल को 3-8-2000 से अस्थायी आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में समूह "क" सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप-अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अविनाश दीक्षित, उप-सचिव

दिनांक 3 जनवरी, 2001

सं० एस०एम०/01/001/2000—राष्ट्रपति, मिम्ललिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में समूह "क" सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप-अधीक्षक सर्वेक्षण के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. श्री च० बेन्कटेश्वर राव | 29-09-2000 |
| 2. श्री उदय शंकर प्रसाद    | 29-09-2000 |
| 3. श्री नितिन जोशी         | 29-09-2000 |
| 4. श्री संदीप श्रीवास्तव   | 02-11-2000 |

अविनाश दीक्षित, उप-सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 17 नवम्बर, 2000

सं० ए-12023/6/93-प्रशा० 1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 29-10-1997 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी, श्री ब्रह्म पाल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 7450-225-11,500 रु० के वेतनमान में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 8 अक्टूबर, 2000 से 1 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर, 2000

सं० ए-19011/04/74-प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख (रा० वि० प्रौ० सं० प०) डा० एन० के० सहगल को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप 30 नवम्बर, 2000 (अपराह्न) में मरकरी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

सं० ए-19011/04/74-प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख (एन० आर० डा० एम० एम० एवं ई० एस० एस०) डा० आर० के० मिश्रा का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप 30 नवम्बर, 2000 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 दिसम्बर, 2000

सं० ए-12023/1/97-प्रशा० 1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 11-10-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्रीमती वी० पी० मादरा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 01-11-2000 से 31-01-2001 (अपराह्न) अथवा नियमित चयन सूची के अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो सहर्ष बढ़ाते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी, 2001

सं० ए-12023/2/98 प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सी एस एस एस संवर्ग के स्थायी ग्रेड 'सी' आशुलिपिक श्री एस० सी० भसीन को 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में, 1 जनवरी, 2001 से 6 माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी, 2001

सं० ए० 19013/01/97-प्रशा० 1(ए) : भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रवरण कोटि के लिए, 15,100-400-18,300 रुपये के वेतनमान में श्री वेद प्रकाश, के० प्र० से० (ए०जी०एम० यू० : 86) की नियुक्ति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री वेद प्रकाश को उपर्युक्त वेतनमान में 29-12-2000 से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पर तथा 14-02-2002 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उनके द्वारा धारित उप सचिव के पद को, उनके लिए वैयक्तिक कार्रवाई के तौर पर, निदेशक के पद के रूप में पुनः नामोददिष्ट किया जाता है।

विजय कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 नवम्बर, 2000

सं० 17013/8/2000-भा० व० से० II : भारतीय वन सेवा (पदान्तरित द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम-7 के उपविनियम (3) में दिए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 के लिए वर्षवार चयन सूची तैयार करने के लिए 30-10-2000 को नई दिल्ली में चयन समिति की बैठक हुई थी। 01 जनवरी, 1998, 1999, 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय वन सेवा के कर्नाटक संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नत गतिवृत्तियों को भरे जाने के लिए उपर्युक्त बैठक

में तैयार की गई चयन सूची में शमिल भारतीय वन सेवा, कर्नाटक के निम्नलिखित सदस्यों के नामों को संघ लोकसेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है :—

| वर्ष 1998 के लिए चयन सूची | रिक्त पदों की संख्या—तीन |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|----------|----------------|-----------|
|----------|----------------|-----------|

सर्व श्री

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| * 1. एम० सी० तम्बाकाड | 22-7-1960  |
| 2. बी चिक्कापाहिया    | 01-06-1949 |
| 3. एन० राजशेखर        | 08-09-1954 |

| वर्ष 1999 के लिए चयन सूची | रिक्त पदों की संख्या—चार |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|----------|----------------|-----------|
|----------|----------------|-----------|

सर्व श्री

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| * 1. एम० सी० तम्बाकाड | 22-7-1960 |
| 2. अशोक वी० वासरकोड   | 13-3-1959 |
| 3. एस० मुर्धैया       | 01-9-1955 |
| 4. के० एच० नागराज     | 01-7-1958 |

| वर्ष 2000 के लिए चयन सूची | रिक्त पदों की संख्या—चार |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | जन्म तिथि |
|----------|----------------|-----------|
|----------|----------------|-----------|

सर्व श्री

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| * 1. एम० सी० तम्बाकाड     | 22-07-1960 |
| 2. श्री बी० एम० टी० राजीव | 06-8-1946  |
| 3. बी० डी० प्रसन्नाकुमार  | 10-4-1953  |
| 4. के० एम० नारायणस्वामी   | 14-01-1960 |

\*सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने की शर्त पर अस्थायी रूप से शामिल किया गया।

@राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शर्त पर अस्थायी रूप से शामिल किया गया।

आर० सानेहवाण, अवर सचिव

सं०-17013/13/2000-भा० व० से०-2—भारतीय वन सेवा अधिनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) (प्रशिक्षण द्वारा नियुक्ति) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने एक चयन सूची को स्वीकृत किया है जिसमें नागालैंड के निम्नलिखित दो राज्य वन सेवा अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस चयन सूची को नागालैंड संवर्ग से 1 जनवरी, 2000 तक प्रशिक्षण रिक्तियों को भरने हेतु नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार किया गया था:—

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम        | जन्म-तिथि |
|----------|-----------------------|-----------|
| 1.       | श्री टी० सोसंग लोंगवर | 1-9-1951  |
| 2.       | श्री टी० एमन्बा यादेन | 1-9-1952  |

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर, 2000

सं० 17016/13/2000-भा० व० से०-2—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड, हिमाचल प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश की सहमति से केन्द्रीय सरकार श्री बी० सुन्दर (नागालैंड: 1998) व उनकी पत्नी श्रीमती एम० रेवती (हिमाचल प्रदेश: 1996) को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक, 5 दिसम्बर, 2000

सं० 17013-8/2000-भा० व० से०-2—भारतीय वन सेवा (प्रशिक्षण द्वारा नियुक्ति) के विनियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा की मौजूदा रिक्तियों पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय सेवा का कर्नाटक संवर्ग आर्बटित करते हैं:—

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम             | जन्म-तिथि |
|----------|----------------------------|-----------|
| 1.       | श्री बी० विकपाइया          | 1-6-1949  |
| 2.       | श्री एन० राजशेखर           | 8-9-1954  |
| 3.       | श्री अशोक बी० बसरकोड       | 13-3-1959 |
| 4.       | श्री एस० मुथैया            | 1-9-1955  |
| 5.       | श्री के० एच० नागराज        | 1-7-1958  |
| 6.       | श्री बी० डी० प्रसन्नाकुमार | 19-4-1953 |
| 7.       | श्री के० एम० नारायणस्वामी  | 14-1-1960 |

आर० मानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर, 2000

सं० 17013/13/2000-भा० व० से०-2—भारतीय वन सेवा विनियम (प्रशिक्षण द्वारा नियुक्ति) के विनियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागालैंड राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा की मौजूदा रिक्तियों पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा की नागालैंड संवर्ग आर्बटित करते हैं:—

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम        | जन्म-तिथि |
|----------|-----------------------|-----------|
| 1.       | श्री टी० सोसंग लोंगवर | 1-9-1951  |
| 2.       | श्री टी० एमन्बा यादेन | 1-9-1952  |

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक, 13 दिसम्बर, 2000

सं० 17012/1/99-भा० व० से०-2—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा परीक्षा 1998 को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले निम्नलिखित 5 (पांच) अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय वन सेवा में परीवीक्षा आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

| क्र० सं० | परीवीक्षार्थी का नाम      | नियुक्ति की तारीख    |
|----------|---------------------------|----------------------|
| 1.       | श्री राहुल राजपूत         | 1-9-2000 (पूर्वाह्न) |
| 2.       | श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह | 1-9-2000 (पूर्वाह्न) |
| 3.       | श्री पी० सेन्थिल कुमार    | 1-9-2000 (पूर्वाह्न) |
| 4.       | श्री प्रीत पाल सिंह       | 1-9-2000 (पूर्वाह्न) |
| 5.       | श्री पी० कमलकान्त         | 1-9-2000 (पूर्वाह्न) |

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक, 29 दिसम्बर, 2000

सं० ए-17013-15(2)/98-भा० व० से०-II—श्री युद्धवीर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका 1850/98 में पुनरीक्षा प्रार्थनापत्र संख्या 107/2000 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 17-11-2000 को पारित आदेश के अनुसरण में पंजाब संवर्ग की वर्ष 1995-96 के लिए चयन सूची में पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप और भारतीय वन सेवा (प्रशिक्षण द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1966 के विनियम

9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री युद्धवीर सिंह (जन्मतिथि 15-12-1942) को 14 अगस्त, 1996 से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का पंजाब संवर्ग आवंटित करते हैं।

2. श्री युद्धवीर सिंह को भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, दिनांक 30 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 17013/15/96-भा० व० से०-II को रद्द किया जाता है।

आर० सानेहवाल, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० ए०-12025/74/94-सी० एच० एस०-1—राष्ट्र-पति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अशोक जी० पटेल को 21-4-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-द० रो०-100-4000 रुपए के वेतनमान में

अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अशोक जी० पटेल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/220/94-सी० एच० एस०-1—राष्ट्र-पति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अहमद अली खान को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-द० रो०-100-4000 रुपए के वेतनमान में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अहमद अली खान को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-39012/4/2000-सी० एच० एस०-1—अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के परिणामस्वरूप डा० आनन्द अग्रवाल ने 12-9-2000 के पूर्वाह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० ए०-32012/5/99-सी० एच० एस०-1—वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी प्रोन्नति के परिणाम-स्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने दी गई तारीख को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उपसंवर्ग के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और नीचे दर्शाए अनुसार संबंधित संगठन के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया:—

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम                | संगठन                                   | चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने की तारीख |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.       | डा० (श्रीमती) नीना गुप्ता     | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली | 20-9-98 (अपराह्न)                                  | 21-9-98 (पूर्वाह्न)                                        |
| 2.       | डा० (श्रीमती) सुधा मुरिया     | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  | 21-9-98                                            | 21-9-98                                                    |
| 3.       | डा० (श्रीमती) शकुन्तला गुप्ता | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  | 21-9-98 (पूर्वाह्न)                                | 21-9-98 (पूर्वाह्न)                                        |
| 4.       | डा० रमन कुमार मेहता           | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली | 21-9-98                                            | 21-9-98                                                    |
| 5.       | डा० राजेन्द्र प्रसाद          | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  | 21-9-98 (पूर्वाह्न)                                | 21-9-98 (पूर्वाह्न) ।                                      |

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० ए-32012/2/2000-सी०एच०एम०-I-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी प्रोमोति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने दी गई तारीख को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उपसंवर्ग के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और नीचे दर्शाए अनुसार संबंधित संगठन के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया ---

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम   | संगठन                                   | चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने की तारीख |
|----------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                | 3                                       | 4                                                  | 5                                                          |
| 1        | डा० कमल धरेजा    | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  | 30-7-97 (अपराह्न)                                  | 31-7-97 (पूर्वाह्न)                                        |
| 2        | डा० आनन्द स्वल्प | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  | 1-9-97 (पूर्वाह्न)                                 | 1-9-97 (पूर्वाह्न)                                         |
| 3        | डा० पूजा शर्मा   | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली | 6-7-97 (अपराह्न)                                   | 7-7-97 (पूर्वाह्न)                                         |
| 4        | डा० मनोज जैन     | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली | 24-3-98 (पूर्वाह्न)                                | 24-3-98 (पूर्वाह्न)                                        |

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2001

सं० ए० 12025/116/98-सी०एच०एम०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अनवर सलोह के० के० को 20-5-99 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० अनवर सलोह के० के० को लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/77/98-सी०एच०एम०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० हिमांशु शेखर महापात्र को 7-7-1999 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० हिमांशु शेखर महापात्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/137/99-सी०एच०एम०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० नीरज कुमार सिन्हा को 7-3-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० नीरज कुमार सिन्हा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/71/99-सी०एच०एम०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० रवि बेंकट साँई कुमार को 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 3-3-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी, 2001

सं० ए० 12025/118/97-सी०एच०एम०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० जगमोहन लाल को 22-5-98 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० जगमोहन लाल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० ए० 12025/36/98-सी०एच०एम०-IV-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० कृष्णा मूर्ति काम्बले को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनोत्तर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 17 नवम्बर, 1999 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक क्षेत्रीय कृषि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर के अधीन सहायक निदेशक (विकास-विज्ञान) के पद पर तैनात करते हैं।

एन० के० पद्मकरण, अवर सचिव

नई दिल्ली 110011, दिनांक 17 जनवरी 2001

सं० ए-38012/7/2000-सी०एच०एस०-I-स्वास्थ्य सेवा निवृत्ति पर चले जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डा० एच० एस० आर० मूर्ति ने 7-9-2000 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

उ० नांगिया, अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2001

सं० ए-35014/4/2000-सीएचएस-I-IV-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनोत्तर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड II के अधिकारी डा० योगेश चन्द्र पोरवाल ने सऊदी अरब सरकार के साथ बाह्य नियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के परिणामस्वरूप 4-11-2000 के अपराह्न से राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली, नई दिल्ली में चिकित्सा विशेषज्ञ के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

उ० नांगिया, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर, 2000

सं० ए-19013/4/2000-प्रशा०-I-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-11-2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई० ओ० (एमएम) के अनुसार नौबहन मंत्रालय से पशुपालन एवं डेयरी विभाग में श्री आर० के० शर्मा के स्थानान्तरण तथा 1-12-2000 (पूर्वाह्न) से उनके द्वारा अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने के आधार पर श्री आर० के० शर्मा, अवर सचिव को 1-12-2000 (पूर्वाह्न) से पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कर्मचारियों की सूची में ग्रहण कर लिया गया है।

जे० के० प्रसाद, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० ए-19013/4/2000-प्रशासन-I-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-11-2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/17/2000-ई०ओ०(एमएम) के अनुसार श्रीमती राधामनी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पशुपालन एवं डेयरी विभाग में स्थानान्तरण तथा 5-12-2000 (पूर्वाह्न) से उनके द्वारा अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने के आधार पर श्रीमती राधामनी को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कर्मचारियों की सूची में ग्रहण कर लिया गया है।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2000

सं० ए० 19013/4/2000-प्रशासन-I-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 8-11-2000 के अदेश संख्या 12016/5/98-आईएसएस तथा श्री आर० एन० सिंह ग्रेड-3 (एसटीएस) के 9-11-2000 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने के अन्तर्गत में श्री आर० एन०

सिंह, ग्रेड-3 (एसटीएस) को 9-11-2000 (पूर्वाह्न) से 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आईएसएस के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) पर प्रोन्नत किया जाता है।

श्री आर० एन० सिंह को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में आईएसएस के जेएजी पद पर तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर एक 221 (ए) (I) की अवस्थाओं के अनुसार उनका वेतनमान संयुक्त निदेशक के पद पर 9-11-2000 से 12,750 रुपए पर निश्चित किया जाता है। श्री आर० एन० सिंह सालू नसबन्दी आपश्चर्य के कारण 275 रुपए के वैयक्तिक वेतन की प्राप्ति करने के पात्र हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं० 3/4/96-मात्स्यिकी (प्रशा०)-राष्ट्रपति, श्री ए० रविचन्द्रन को 28-11-2000 से अगले आदेशों तक 8000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय मात्स्यिकी नीचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान कोचीन में बरिष्ठ अनुदेशक, समूह "क" राजपत्रित के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० पी० मल्होत्रा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० 3-7/98-प्रशा०-1-संव लोक सेवा आयोग के पक्ष सं० 1/416/98-आर०-IV दिनांक 3-8-2000 के अनुसार उनकी सिफारिश के आधार पर और नियुक्ति प्रस्ताव में वर्णित शर्तों के अधीन, राष्ट्रपति, डा० मरुज कुमार अधिकारी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में दिनांक 5 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं।

आर० एस० शर्मा, अवर सचिव

संघीय मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 दिसम्बर 2000

सं० 13-15/2000-एसपीजी-भारतीय डाक सेवा समूह "क" के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31-12-2000 (अवसर्ग) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम  | वर्तमान पद स्थापना  |
|----------|-----------------|---------------------|
|          | सर्वश्री        |                     |
| 1.       | पी० आर० गायकवाड | महाराष्ट्र सक्रिय   |
| 2.       | वी० आर० जोशी    | कर्नाटक सक्रिय      |
| 3.       | टी० आर० आटव     | उत्तर प्रदेश सक्रिय |
| 4.       | एस० पी० सिंह    | मध्य प्रदेश सक्रिय  |
| 5.       | एम० डुंग डुंग   | मध्य प्रदेश सक्रिय  |

ए० के० दाश, निदेशक (स्टाफ)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० ई० (जी० पी०)/99/1/51—राष्ट्रपति जी, दक्षिण रेलवे के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में ग्रप "बी" अधिकारी श्री एम० आर० गुप्ता को 28-7-2000 में भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति का महर्ष अनुमोदन करते हैं।

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 दिसम्बर 2000

सं० ई० (जी० पी०)/88/1/49—राष्ट्रपति जी, पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ग्रप "बी" अधिकारी श्री एम० के० आर्य को 27-11-89 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति का महर्ष अनुमोदन करते हैं।

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव (रेलवे बोर्ड)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(स्थापना-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2001

सं० ए-12026/3/98-स्था०-1—राष्ट्रपति इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिपूचना, दिनांक 25/7/2000 के अनुक्रम में श्री ललित कुमार, श्री डी० एम० अजाज और श्री रामकिशन निजि सचिवों की प्रधान निजि सचिवों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति को 30-06-2001 तक के लिए अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, यहाँते हैं।

गीता मेहता, अवर सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2001

सं० ए-12022/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित ग्रेड-I अधिकारी श्रीमती शारदा अलि खान को व्यक्तिगत/तदर्थ आधार पर नागर विमानन मंत्रालय में 12,000-16,500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई रोटेशन नीति के अनुसरण में उप-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 श्रीमती शारदा अलि खान को व्यक्तिगत/तदर्थ आधार पर मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर नियुक्त होने पर उन्हें मंत्रालय (मुख्य) में तैनात किया जाता है।

करतार सिंह पंधार, अवर सचिव

सं० ए-12022/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित ग्रेड-I अधिकारी श्रीमती एम० नरेन्द्रा का व्यक्तिगत/तदर्थ आधार पर नागर विमानन मंत्रालय में, 12,000-16,500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई रोटेशन नीति के अनुसरण में, उप-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

3-142 GI/2000

2 श्रीमती एम० नरेन्द्रा की व्यक्तिगत/तदर्थ आधार पर मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर नागर विमानन मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

करतार सिंह पंधार, अवर सचिव

सं० ए-12022/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति श्री रामधारी सिंह को नागर विमानन मंत्रालय में, 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई रोटेशन नीति के अनुसरण में, अवर-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2 श्री रामधारी को मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर नागर विमानन मंत्रालय में उप-निदेशक (प्रशासन) के पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के वेतनमान में तैनात किया जाता है।

करतार सिंह पंधार, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2001

सं० 2/2001 सि० सं० ए-32013/1/2001-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग समूह (क) सेवा के अधिकारी श्री जी० एल० मिश्र को अगले आदेशों तक दिनांक 08-12-2000 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के मुख्य अभियन्ता/महानिदेशक (क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड) के ग्रेड में 5900-6700/- रु० के वेतनमान (पूर्व संशोधित) में नियुक्त करते हैं।

एस० एन० वर्मन, उप सचिव

जल समाधान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2001

सं० 06/2001, फाईल संख्या 3/13/99 स्था०-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री पी० सी० माथुर को पदोन्नति पर, नियमित आधार पर इसी सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के अध्यक्ष, संग्रह बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना, के पद पर रुपये 22,400-24,500 के वेतनमान में, दिनांक 19-12-2000 (अग्राह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० ए-22012/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्री जे० पी० पति (केन्द्रीय सिविल सेवा) को दिनांक 5 जनवरी 2001 के अग्राह्न से अगले आदेशों तक राज मंत्रालय में सचिव सचिव नियुक्त करते हैं।

एम० के० शर्मा, अवर सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 7th December 2000

No. A. 35011/52/96-Adm.—The post of Internal Financial Adviser, held by Shri M. J. Joseph, is hereby re-designated as Joint Secretary and Financial Adviser, President's Secretariat, as a measure personal to him, with effect from 29-9-2000, until further orders.

LIKHI RAM, Under Secy. (Admn)

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 19th January 2001

No. RS/8(ii)/2001/3-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Parliamentary Reporters Grade-I in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Parliamentary Reporter Grade-I in that Secretariat with effect from the forenoon of the 19th January, 2001, until further orders —

1. Shri N. Babu Rao

2. Shri Udhham Singh Yadav

2. The appointment of Shri Udhham Singh Yadav is against the deputation vacancy of Shri K. L. Gandhi, Parliamentary Reporter Grade-I.

VANAJA N. SARNA, Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st January 2001

No. PF. 2091 (3)/AN-I/GN-4521/2000.—Dr. D. K. Singh, Assistant Director (LARRDIS) is relieved of his duties in this Secretariat with effect from 1st January, 2001 (F/N) and thereafter his services are placed on deputation basis at the disposal of Ministry of Information Technology, Government of India, New Delhi for his appointment as Additional Private Secretary to the Minister of Information Technology (Shri Pramod Mahajan).

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 17th January 2001

No. A-19013/2/97-Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. Archana Pandey, IC&CES (85), Deputy Secretary, Cabinet Secretariat as Director in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 9th January, 2001 for the remaining period of her tenure i.e. upto 29-7-2002 or until further orders whichever event takes place earlier.

RAJ SINGH, Dy. Secy

## MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

## (NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 12th January 2001

No. 11 (5)/2000-Pers. (I).—The President is pleased to appoint Shri P. Sreenivasa Rao (Employee Code 3014) as Scientist/Engineer-SG in the pay scale of Rs. 5100-150-5700-200-6300 (pre-revised) in a substantive capacity in the National Informatics Centre with immediate effect.

K. SUBBIAH, Director (Pers.)

No. 11 (5)/2000-Pers. (ii).—The President is pleased to appoint Shri H. C. Nandyal (Employee Code 3155) as Scientist/Engineer-SF in the pay scale of Rs. 4500-150-5700 (pre-revised) in a substantive capacity in the National Informatics Centre with immediate effect.

K. SUBBIAH, Director (Pers.)

No. 11 (5)/2000-Pers. (iii).—The President is pleased to appoint Dr. Suresh Chand Gupta (Employee Code 2847) as Scientist/Engineer-SF in the pay scale of Rs. 4500-150-5700 (pre-revised) in a substantive capacity in the National Informatics Centre with immediate effect.

K. SUBBIAH, Director (Pers.)

No. 11 (5)/2000-Pers. (iv).—The President is pleased to appoint Shri K. S. Ranganathan (Employee Code No. 2969) as Scientist/Engineer-SF in the pay scale of Rs. 4500-150-5700 (pre-revised) in a substantive capacity in the National Informatics Centre with immediate effect.

K. SUBBIAH, Director (Pers.)

New Delhi-110003, the 11th January 2001

No. A-39013/1/2000-Adm. I.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Bipul Sharma, Emp. Code No. 1681, from the post of Scientist 'D', National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow, with effect from the afternoon of 10-11-2000 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

STANDARDISATION, TESTING AND QUALITY  
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 18th January 2001

No. 16 (04)/2000-PA. II.—The President is pleased to appoint the following officers to higher grades indicated below to give effect to the review promotion with effect from 1-1-2001 or from the date of assumption of charge of post, whichever is later :—

Sl. No., Name &amp; Designation, Place of Posting, Post of Promotion &amp; Scale of Pay

1. Shri C.K. Verma, Scientist 'E', ERTL (W), Mumbai—Scientist 'F', Rs. 16,400—20,000/-
2. Shri A.K. Dhar, Scientist 'D', ERTL (East), Calcutta—Scientist 'F', Rs. 14,300—18,300/-
3. Shri Suvendu Das, Scientist 'D', ERTL (East), Calcutta—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
4. Shri T. Mahendran, Scientist 'D', ETDC, Bangalore—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
5. Shri V. Siddalingappa, Scientist 'D', ETDC, Bangalore—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
6. Ms. P. R. Padma, Scientist 'D', ERTI (South), Thiruvananthapuram—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
7. Ms. Latha K. Moorthy, Scientist 'D', ERTL (South), Thiruvananthapuram—Scientist 'F', Rs. 14,300—18,300/-
8. Shri A. K. Chawla, Scientist 'D', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'F', Rs. 14,300—18,300/-
9. Shri J. P. Vatsa, Scientist 'D', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'F', Rs. 14,300—18,300/-
10. Shri R. C. Thakur, Scientist 'D', ERTL (W), Mumbai—Scientist 'F', Rs. 14,300—18,300/-
11. Shri Anupam Gupta, Scientist 'D', ERTI (W), Mumbai—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
12. Shri Azad Verma, Scientist 'D', ETDC, Jaipur—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
13. Shri G. Chennakesavulu, Scientist 'D', ETDC, Hyderabad—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
14. Shri Om Prakash Kapoor, Scientist 'D', ETDC, Mohali—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
15. Shri B. K. Mohan, Scientist 'D', ETDC, Guwahati—Scientist 'E', Rs. 14,300—18,300/-
16. Shri C. Chokkimala, Scientist 'D', ETDC, Chennai—Scientist 'E', Rs. 12,900—16,000/-
17. Ms. K. Arulselvi, Scientist 'D', ETDC, Chennai—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-

Sl. No., Name & Designation, Place of Posting, Post of Promotion & Scale of Pay.

18. Shri D. K. Gulati, Scientist 'C', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-.
19. Ms. Asha Nangia, Scientist 'C', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-.
20. Shri P. K. Das, Scientist 'C', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-.
21. Shri Abdul Moid, Scientist 'C', ERTL (West), Mumbai—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-.
22. Shri Basant K. Vasnik, Scientist 'C', ERTL (West), Mumbai—Scientist 'D', Rs. 12,000—16,500/-.
23. Ms. Sabita Saha, Scientist 'B', ERTL (East), Calcutta—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
24. Shri K. S. Shaji, Scientist 'B', ERTL (South), Thiruvananthapuram—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
25. Shri Dharamvir Singh, Scientist 'B', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
26. Shri Sheo Prasad, Scientist 'B', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
27. Shri Prahlad Gupta, Scientist 'B', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
28. Shri Jitender Sangal, Scientist 'B', ERTL (North), New Delhi—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
29. Shri Vinod K. Dhar, Scientist 'B', ERTL (West), Mumbai—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
30. Shri Chetan R. Kathalaya, Scientist 'B', ERTL (West), Mumbai—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
31. Shri Mahantand V. Deshpande, Scientist 'B', ERTL (Mumbai)—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.
32. Shri Jaganmohan Rao, Scientist 'B', ETDC, Hyderabad—Scientist 'C', Rs. 10,000—15,200/-.

A. K. CHAWLA, H. Director

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th December 2000

No. No. 20012/2, 94-Adm.II.—Planning Commission's Notification No. A. 12025/4/99-Adm.II. dated 14-11-2000 appointing Sh. Shyam Singh, regular Sr. Research Assistant (Project Appraisal), Planning Commission as Research Officer (Women's Programme), Planning Commission stands cancelled.

S. L. KHETARPAL, Under Secy.

The 5th December 2000

No. A. 12025/3/2000-Adm.II.—In continuation of Planning Commission's Notification No. A. 12025/12 98-Adm.II. dated 22-6-2000, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Sh. Chhotu Lal, Sr. Research Assistant (Sociology), Planning Commission as Research Officer (Sociology), Planning Commission for a period of six months w.e.f. 21-11-2000 or until further orders whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow any claim on him for regular appointment, seniority etc. in the grade of Research Officer.

S. L. KHETARPAL, Under Secy.

The 8th December 2000

No. A. 12025/4/99-Adm.II.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 16-5-2000, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Sh. M. Joseph Eugene Raj, Sr. Research

Assistant (Project Appraisal), Planning Commission as Research Officer (Project Appraisal), Planning Commission for a period of six months w.e.f. 1-12-2000 or until further orders whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow any claim on him for regular appointment, seniority etc. in the grade of Research Officer.

S. L. KHETARPAL, Under Secy.

The 26th December 2000

No. A. 20012/15/86-Adm.II.—On attaining the age of superannuation, Shri J. G. Gandhi, a Grade IV of IES (ad-hoc), Research Officer, Planning Commission retires from Government service w.e.f. the afternoon of 31-12-2000.

S. L. KHETARPAL, Under Secy.

New Delhi, the 2nd January 2001

No. F.6 (1817)/2001-Adm.I.—Consequent on his transfer from the Department of Commerce under the Rotation Policy of the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 31/28/2000-EO (MM.1) dated 13th December, 2000, Shri G. P. Grover, CSS, Deputy Secretary, Department of Commerce has assumed charge as Deputy Secretary in the Planning Commission w.e.f. 1-1-2001 (F/N).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 8th January 2001

No. A-12022/1/2000-Adm.IV.—Consequent upon his posting in the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission), vide Department of Economic Affairs' Office Order No. 13015/1/97-IES dated 28-9-2000, Shri H. K. Naskar, a Junior Time Scale level officer of IES (ad-hoc) assumed charge as Research Officer, on ad-hoc basis, in the scale of Rs. 8000-275-13500, at Regional Evaluation Office, Calcutta with effect from the forenoon of 20th December, 2000.

H. R. GOUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

##### (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

##### LAW COMMISSION

New Delhi, the 20th December 2000

No. A-12024/1/99-LC.—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Pawan Sharma, Deputy Law Officer, Law Commission as Additional Law Officer in Law Commission, Deptt. of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice & Co. Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. 18th December, 2000 (forenoon) on direct recruitment basis until further orders and subject to further orders to be passed in O. A. 2368/2000 filed by Dr. (Kum.) Mukulita Vijayawargia, Deputy Law Officer, Law Commission before Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

B. SINGH, Under Secy.

##### (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 2nd January 2001

No. PFG(816)/2000-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri V. Govindarajan, IAS (AP : 1967) as Secretary to the Government of India in the Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs w.e.f. the afternoon of 31-12-2000.

SAT PAL, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th January 2001

No. 14011/6 2000-IPS.1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this Notification.

Sl. No. Name of the Officer &amp; Date of Birth

S/Shri

1. R. V. Jotangia—14-01-1958.
2. B. K. Shrivastava—26-08-1952.

2. The appointment of the aforesaid officers to IPS shall be subject to final outcome of the SCA No. 582/97 filed by Shri S. S. Tivedi, SCA No. 7486/97 filed by Shri R. D. Mankadia, SCA No. 9286/97 filed by Shri H. G. Patel & others before the Hon'ble High Court of Gujarat.

R. K. MITRA, Dy. Secy.

The 19th January 2001

No. 14011/12/2000-IPS.1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Madhya Pradesh under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this Notification.

Sl. No. Name of the Officer &amp; Date of Birth

S/Shri

1. G. D. Lakshani—11-06-1917
2. K. K. Lohani—02-10-1952
3. M. K. Mudgal—07-02-1954
4. M. S. Kanwar—01-07-1955
5. G. P. Ukey—28-01-1955
6. L. L. Ahnwar—01-06-1951

R. K. MITRA, Dy. Secy.

The 9th January 2001

No. 14016 43 90-UTS-II.—Under Clause (b) of Sub-rule 2 of Rule 7 read with Rule 10 of the Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service, 1996 Joint Secretary (Union Territories) Ministry of Home Affairs hereby appoints the following officers to Grade-II of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service on probation for a period of two years with immediate effect :—

1. Shri P. C. Chaturvedi
2. Shri V. K. S. Chauhan
3. Shri Manjeet Raj
4. Shri R. T. L. D'Souza
5. Shri H. R. Sapra
6. Shri R. P. Barua
7. Shri V. K. Malhotra
8. Shri H. C. Saluja
9. Shri R. C. Gupta
10. Shri Brahm Pal Singh (SC)
11. Shri Chander Bhan (SC).

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2001

No. 14020/5 2000-Ad(CD).—The President is pleased to appoint Sh. Divakar Prasad, IPS (HP:68) as Director General Civil Defence on deputation in the pay scale of Rs. 22400-525-24500/- with effect from 1-12-2000 (Forenoon) until further orders.

Smt. UMA GOEL, Director (CS)

No. A-32014/5/99-Ad. 1(A).—The President is pleased to continue the appointment of the following Principal Private Secretaries of CSSS as Senior Principal Private Secretary (Rs. 12,000—16,500/-) on adhoc basis upto 30-06-2001 or till regular Sr. PPSs become available, whichever is earlier.

Sl. No. &amp; Name

S/Shri

1. J. N. Makhija
2. P. D. Bhardwaj
3. B. M. Vedi
4. Smt. R. K. Kewani
5. S. Ramakrishnan
6. J. P. Juneja
7. P. K. Jolly.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

## COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi 110011, the 18th December 2000

No. A-20012/14/2000-Samiti-6.—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Pandey, Assistant Director (Rajbhasha) of the Ministry of Agriculture and Co-operation, Directorate of Marketing & Inspection, Head Office, NH-IV, Faridabad, as Under Secretary (Research) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Committee of Parliament on Official Language on deputation basis with effect from the afternoon of 14-12-2000 till further orders.

HARI SHANKAR SINGH, Under Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &amp; PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 15th January 2001

No. 14015/14/2000-MIS (1) —In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List containing the names of the following members of the State Civil Service of the State of Maharashtra prepared by the Selection Committee in its meeting held on the 14th September, 2000 towards filling up 10 existing vacancies in the Indian Administrative Service Maharashtra Cadre during 2000.

Sl. No., Name and Date of Birth

(S/Shri)

1. R. L. Mopalwar—15-02-1958
2. M. S. Chowdhari—22-04-1954
3. B. S. Pande—25-10-1943
4. N. N. Kawade (SC)—31-12-1949
5. S. B. Patil—10-02-1953
6. V. S. Nabata—01-06-1953
7. B. Y. Wankhede—01-07-1953
8. M. S. Kamble (SC) [Deonikar]—18-09-1953
9. B. K. Naik—24-10-1948
10. R. N. Joshi—26-10-1954

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

New Delhi, the 16th January 2001

No. 14015/14/2000-AIS (1).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) R. L. Mopulwai (2) M. S. Chowdhary (3) B. S. Pande (4) N. N. Kawade (5) S. B. Patil (6) V. S. Nahata (7) B. Y. Wankhede (8) M. S. Kamble [Deonikar] (9) B. K. Naik and (10) R. N. Joshi, members of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the cadre of Maharashtra under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/1/2000-AIS (1).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2000 Select List containing the names of S/Shri (1) D. H. Brahmhatt (DOB : 08-03-1954) and (2) D. K. Raval (DOB : 13-03-1955), members of the Non-State Civil Service of the State of Gujarat prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30-11-2000, towards filling up two existing vacancies in the Indian Administrative Service Gujarat Cadre during the year 2000.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

The 17th January 2001

No. 14015/1/2000-AIS (1).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) D. H. Brahmhatt and (2) D. K. Raval, members of the Non-State Civil Service of Gujarat to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

New Delhi, the 17th January 2001

No. 13011/61/96-AIS (1).—In pursuance of this Department Order No. 13011/61/96-AIS (1) dated 11th January, 2001 and in exercise of the powers conferred by Rule 12(b) of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the Central Government hereby discharges Shri D. Anil from Indian Administrative Service with immediate effect.

SUDHIR TRIPATHI, Director

New Delhi, the 12th January 2001

No. 13017/17/2000-AIS(1).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Uttar Pradesh the Central Government hereby transfers Shri Ajay Chauhan, IAS (RR : 98) from IAS cadre of Tamil Nadu to IAS Cadre of Uttar Pradesh with immediate effect.

K. K. SHARMA, Desk Officer

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st December 2000

No. Q/PAI/50/2000.—The President is pleased to appoint Shri Atish Sinha, an officer in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of the 1st November, 2000 until further orders.

2. On promotion to Grade II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade III of IFS on the forenoon of 01-11-2000 and assumed charge of the post in Grade II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

No. Q/PAI/51/2000.—On attaining the age of superannuation, Shri Sushil Dubey, formerly Ambassador in Embassy of India, Stockholm, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of November 30, 2000.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

No. Q/PAI 52/2000.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Bhatnagar, formerly Ambassador in Embassy of India, Lisbon, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of November 30, 2000.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

The 11th December 2000

No. Q/PAI/53/2000.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Giani, (Retd.) in Grade IV of the Indian Foreign Service (IFS) to Grade-III of the Service with effect from the forenoon of the 19th June, 1992.

2. On promotion to Grade III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade IV of IFS on the forenoon of 19th June, 1992 and assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

The 13th December 2000

No. Q. PAI 56/2000.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, an officer in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of the 1st December, 2000 until further orders.

2. On promotion to Grade II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade III of IFS on the forenoon of 01-12-2000 and assumed charge of the post in Grade II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

The 15th December 2000

No. Q/PAI/57/2000.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Haer, an officer in Grade III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of the 1st December, 2000 until further orders.

2. On promotion to Grade II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade III of IFS on the forenoon of 01-12-2000 and assumed charge of the post in Grade II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy.  
(FSP & Cadre)

No. Q/PAI 58/2000.—The President is pleased to appoint Shri H. C. S. Dhody, an officer in Grade II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of the 1st December 2000 until further orders.

2. On promotion to Grade I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade II of IFS on the forenoon of 01-12-2000 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy  
(FSP & Cadre)

No Q PAI/39/2000—The President is pleased to appoint Shri S K Uppal, an officer in Grade II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of the 1st December 2000 until further orders.

2. On promotion to Grade I of IFS the officer relinquished charge of the post in Grade II of IFS on the forenoon of 01-12-2000 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy  
(FSP & Cadre)

New Delhi, the 5th January 2001

No D III/460/CF 53/2000—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Kuldip Singh Dhingra as Honorary Consul of Georgia in New Delhi with immediate effect.

The Consular Jurisdiction of Mr. Kuldip Singh Dhingra comprises all the states and union territories.

P T MANN Dy. Chief of Protocol (F)

New Delhi the 12th December 2000

No 21/PB/2000—On attaining the age of superannuation Shri K D Sharma, Private Secretary in this Ministry retired from Government Service in the afternoon of 30th September 2000.

C S RANDLEV, Administrative Officer (PB)

#### MINISTRY OF FINANCE

##### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi the 10th January 2001

No A 19012 2/2001 Admn II—The President is pleased to appoint Smt Indrani Kaushal a Senior Time Scale Officer of IES as Assistant Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. the forenoon of 04-01-2001 and until further orders.

R S YADAV, Under Secy

No A 19012/3/2001-Admn II—The President is pleased to appoint Shri R K Parmar an NPSG level Officer of IES as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. the forenoon of 13th December 2000 and until further orders.

R S YADAV Under Secy

The 15th January 2001

No A 12011/11 2000 Admn II—In continuation of this Department's Notification of even number dated 26-7-2000 the President is pleased to extend the appointment of the following Principal Private Secretaries as Sr Principal Private Secretary in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs on purely ad hoc basis for a further period of six months w.e.f. 01-01-2001 to 30-06-2001 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier—

Sl. No. and Name of Officials

- 1 Shri O P Arora
- 2 Shri Raman Chandra

2. Ad hoc promotion will not bestow on them any claim for regular appointment in Senior Principal Private Secretary's Grade of the CSSS and the services rendered by them on ad-hoc basis will not be counted for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select list persons become available.

R S YADAV Under Secy

No A 12011, 10 2000-Admn II—In continuation of this Department's Notification of even number dated 26-07-2000, the President is pleased to extend the appointment of the following Private Secretaries as Principle Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on purely ad-hoc basis for a further period upto 30-06-2001 or till the select list persons become available whichever is earlier—

Sl. No. and Name of Officials

S/Shri

- 1 K L Sivastava
- 2 D V Sharma
- 3 R Chakraborty

2. Ad hoc promotion of the above named officials will not bestow on them any claim for regular appointment in Principal Private Secretary's Grade of the CSSS and the services rendered by them on ad-hoc basis will not be counted for the purpose of seniority in the grade of eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select list persons become available.

R S YADAV, Under Secy

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi the 12th January 2001

No PECA 356/AdJ—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Piwan Kumar to the post of Deputy Director (Cos) in the Urban Cost Accounts Service, Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from the forenoon of the 14th December, 2000 and until further orders in the scale of Rs. 10,000-325-15200/-.

K D TIWARI Under Secy

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

##### DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi 110011, the 15th January 2001

No A 22013/1 96 Cadre—In pursuance of Rotation Policy of CSS officers as conveyed in DOP&T's OM No. 31-17-2000 FO(MM-1) dated 1st November 2000, the following CSS officers of Under Secretary level have reported for duty in the Department w.e.f. the dates indicated against their names—

- | Sl. No. | Name (S Shri) | Date of joining & Transferred from              |
|---------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1       | Deepak Bhalla | 18-12-2000 (F/N)—MHA                            |
| 2       | B C Pant      | 19-12-2000 (A/N)—M/Social Justice & Empowerment |
| 3       | Anoop Seth    | 21-12-2000 (A/N)—UPSC                           |

A K GANGULY Under Secy

New Delhi the 18th January 2001

No 12/24/92-EI&EP—In exercise of the power conferred by Section 3 of Enemy Property Act, 1968 as amended by Enemy Property Amendment Act, 1977, the Central Government hereby appoints Shri Upal Chakraborty Assistant, Office of the Income Tax Settlement Commission (IT&WT), Additional Bench Calcutta as Assistant Custodian of Enemy Property in the Branch Office of the Custodian of Enemy Property Calcutta with effect from 5-12-2000 (F/N) until further orders.

P K DAS, Director

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND  
PROMOTION

New Delhi, the 2nd January 2001

No. A-12023/1/98-I.I.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the Central Secretariat Services cadre of the Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) as Section Officers in the same cadre on ad hoc basis for the period, as indicated against each, or till further orders, whichever is earlier:—

S No., Name, Name of the Department/Office where posted, Period from—to

S/Shri

1. K. S. Rawat, D/o IP&P—1-9-2000—31-12-2000
2. M. S. Kataria, O/o F.A.—1-9-2000—31-12-2000
3. S. K. Srivastava, D/o IP&P—1-9-2000—31-12-2000
4. M. C. Sharma, D/o FPI—1-9-2000—31-12-2000
5. Amarendra Singh, D/o IP&P—1-9-2000—31-12-2000
6. R. K. Srivastava, D/o IP&P—1-9-2000—31-12-2000
7. S. P. Chopra, O/o DC(SSJ)—1-9-2000—18-11-2000 (F/N)

2. The appointments, ordered above, are made on purely ad hoc basis and do not confer any right upon the Officers concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularisation in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officer concerned.

PRAMIA RAGHAVENDRAN, Under Secy.

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 5th January 2001

No. A-32013/1/98-Admn.—Consequent on his transfer from Department of Personnel & Training in pursuance of the Rotation Policy of the Government vide Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer, O. M. No. 31/17/2000-EO (MM. I) dated 14th November, 2000, Shri Parkash Chand, an officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, Ministry of Coal w.e.f. 30th November, 2000 (A/N) until further orders.

GARGI MUKHERJEE, Director

No. A-32013/1/98-Admn.—Consequent on his transfer from Department of Revenue in pursuance of the Rotation Policy of the Government vide Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer, O. M. No. 31/17/2000-EO (MM. I) dated 14th November, 2000, Shri Lakhbir Singh, an officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, Ministry of Coal w.e.f. 1st December, 2000 (F/N) until further orders.

GARGI MUKHERJEE, Director

The 12th January 2001

No. A-32013/1/98-Admn.—Consequent on her transfer from Union Public Service Commission in pursuance of the Rotation Policy of the Government vide Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer, O. M. No. 31/17/2000-EO (MM. I) dated 14th November, 2000, Smt. Pooja Kaur, an officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, Ministry of Coal w.e.f. 21st December, 2000 (F/N) until further orders.

GARGI MUKHERJEE, Director

## MINISTRY OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE &amp; TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 27th November 2000

No. SM/01/001/2000.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kanchal as Deputy Superintending Surveyor.

Survey of India, Group 'A' service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on temporary basis w.e.f. 3-8-2000.

AVINASH DIKSHIT, Dy. Secy.

The 3rd January 2001

No. SM/01/001/2000.—The President is pleased to appoint the following Officers as Deputy Superintending Surveyor, Survey of India, Group 'A' service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the dates mentioned against their names and until further orders:—

1. Shri Ch. Venkateswara Rao—29-09-2000
2. Shri Uday Shahker Prasad—29-09-2000
3. Shri Nitin Joshi—29-09-2000
4. Shri Sandeep Shrivastava—02-11-2000

AVINASH DIKSHIT, Dy. Secy.

New Delhi-110016, the 17th November 2000

No. A. 12023/6/96-Admn. I (A).—In continuation of this Department's notification of even number dated 29-10-1997, the Secretary, Department of Science & Technology hereby extended the term of deputation of Shri Brahm Pal, Assistant Accounts Officer of the Office of the Controller of Accounts, Ministry of Science & Technology as Accounts Officer in the Scale of Rs. 7450-225-11,500 in the Department of Science and Technology for a further period of one year with effect from 08th October, 2000 or until further orders, whichever is earlier.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 30th November 2000

No. A.19011/04/74-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Dr. N. K. Sehgal, Scientist 'G' and Head (NCSTC) from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th November, 2000 (A/N).

VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A.19011/04/74-Admn.I(A).—The President is pleased to retire Dr. R. K. Midha, Scientist 'G' and head (NRDMS & ESS) from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th November, 2000 (A/N).

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 27th December 2000

No. A.12023/1/97-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 11-10-2000, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Sgt. V. P. Madia as Section Officer in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 6500-260-10500/- for the period from 1-11-2000 to 31-1-2001 (A/N) or till regular S.O. officer joins, whichever is earlier.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 1st January 2001

No. A.12023/2/98-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri S. C. Bhasin a permanent Grade 'C' Stenographer of CSSS cadre of Ministry of Science and Technology as Private Secretary on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Science and Technology for a period of six months with effect from 1-1-2001 or until further orders.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 3rd January 2001

No. A-19013/01 97-Admin.(C.A.).—Consequent upon the appointment of Shri Ved Prakash IAS (AGMU, 86) to the Junior Grade of IAS in the scale of pay Rs. 15,100-100-18,300/- the President is pleased to appoint Shri Ved Prakash as Director in the Department of Science and Technology in the aforesaid scale with effect from 29-12-2000 on Central Deputation period and upto 14-2-2002.

2. The post of Deputy Secretary held by him is redesignated as Director as a measure personal to him upto 14-2-2002.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 29th November 2000

No. 17013/8/2000-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of year-wise Select List for the years 1998, 1999 and 2000 was held on 30th October, 2000 at New Delhi, Union Public Service Commission have now approved the Select Lists prepared in the said meeting containing the names of the following members of the State Forest Service of Karnataka, towards filling up of promotion vacancies available in the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service as on 1st January, 1998, 1999 and 2000 :—

Select List for the year 1998, No. of Vacancies : Three

S. No., Name of the Officer and Date of Birth

S/Shri

1. M. C. Tambakad, 22-7-1960.
2. B. Chikkappaiah, 1-6-1949.
3. N. Rajashekar, 8-9-1954.

Select List for the year 1999, No. of Vacancies : One+Three—Four

S. No., Name of the Officer and Date of Birth

S/Shri

1. M. C. Tambakad, 22-7-1960.
2. Ashok B. Basarkod, 13-3-1959.
3. S. Muthaiah, 1-9-1955.
4. K. H. Nagaraj, 1-7-1958.

Select List for the year 2000, No. of Vacancies : One+Three—Four

S. No., Name of the Officer and Date of Birth

S Shri

- \*1. M. C. Tambakad, 22-7-1960
- (a) 2. B. M. T. Rajiv, 6-8-1946.
3. B. D. Parasannakumar, 10-4-1953
4. K. M. Natayanaswamy, 14-1-1960.

\* included provisionally subject to grant of integrity certificate & for clearance of disciplinary proceedings.

(a) included provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

R. SANEHWAL, Under Secy

No. 17013/13/2000-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of year-wise Select List for the year 2000 was held on 8th November 2000 at New Delhi, Union Public Service Commission have now approved the Select List prepared in the said meeting containing the names of the following two members of the State Forest Service of Nagaland, towards

filling up of promotion vacancies available in the Nagaland Cadre of the Indian Forest Service as on 1st January 2000—

S. No., Name of the Officer and Date of Birth

1. Sh. T. Sosang Longchar, 1-9-1951
2. Sh. T. Amenba Yaden, 1-9-1952.

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 30th November 2000

No. 17016/13 2000-IFS.II.—In exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government with the concurrence of the Governments of Nagaland, Himachal Pradesh and Andhra Pradesh, hereby transfer with immediate effect Shri B. Sunder (Nagaland, 1998) and his spouse Smt. M. Revathi (Himachal Pradesh : 1996), both direct recruit officers of the Indian Forest Service, to the Andhra Pradesh cadre of the Service.

R. SANEHWAL, Under Secy

The 5th December 2000

No. 17013-08/2000-IFS. II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the undermentioned seven officers of the State Forest Service of Karnataka to the Indian Forest Service against the existing vacancies and to allocate them to the Karnataka Cadre of the Indian Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

S. No., Name of the Officer and Date of Birth

S/Shri

1. B. Chikkappaiah—01-06-1949
2. N. Rajashekar—08-09-1954
3. Ashok B. Basarkod—13-03-1959
4. S. Muthaiah—01-09-1955
5. K. H. Nagaraj—01-07-1958
6. B. D. Prasannakumar—19-04-1953
7. K. M. Natayanaswamy—14-01-1960

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 12th December 2000

No. 17013/13/2000-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the undermentioned two officers of the State Forest Service of Nagaland to the Indian Forest Service against existing vacancies and to allocate them to the Nagaland Cadre of the Indian Forest Service under the rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

S. No., Name of the officer and Date of Birth

1. Shri T. Sosang Longchar—01-09-1951
2. Shri T. Amenba Yaden—01-09-1952

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 13th December 2000

No. 17012/01/99-IFS-II.—In exercise of powers conferred under Rule 6 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the President is pleased to appoint the following 05 (Five) candidates, who completed successfully at the Indian Forest Service Examination, 1998, to the Indian Forest Service on probation with effect from the dates indicated against their names :—

S. No., Name of Probationer and Date of Joining

1. Shri Rahul Rajput—01-09-2000 (F/N)
2. Shri Upendra Pratap Singh—01-09-2000 (F/N)
3. Shri P. Senthil Kumar—01-09-2000 (F/N)
4. Shri Preet Pal Singh—01-09-2000 (F/N)
5. Shri P. Kamalanth—01-09-2000 (F/N)

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 29th December 2000

No. 17013-15 (2)/98-IFS-II.—Consequent upon the review of the Select List for the year 1995-96 of the Punjab Cadre in pursuance of the order dated 17.12.2000 passed by the Honble High Court of Punjab & Haryana in Review Application No. 107 of 2000 in Writ Petition No. 1850/98 filed by Shri Yudhvir Singh and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Yudhvir Singh (Date of Birth : 15-12-1942) to the Indian Forest Service with effect from 14th August, 1996 and to allocate him to the Punjab Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

2. Consequent upon the appointment of Shri Yudhvir Singh to the Indian Forest Service, the nomination of 17.12.2000/96-IFS. II dated the 30th September, 1999 stands withdrawn.

R. SANEHWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-11, the 10th January 2001

No. A. 12025/74/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok G. Patel to the Medical Officers Grade of the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 21-9-94 until further orders. Dr. Ashok G. Patel is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Bombay.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/220/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ahmed Ali Khan to the Medical Officers Grade of the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 21-9-94 until further orders. Dr. Ahmed Ali Khan is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Bangalore.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 39012/4/2000-CHS. I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. Anand Agarwal relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer of the Central Health Service under the Government of National Capital Territory of Delhi on the afternoon of 12-9-2000.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11th January 2001

No. A. 32012/5/99-CHS. I.—Consequent on their promotion to the post of Senior Medical Officer, the following officers belonging to the General Duty Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Medical Officer and assumed the charge of the post of Senior Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No., Name of the Officer, Organisation, Date of relinquishment of charge as MO and Date of assumption of charge as SMO

1. Dr. (Smt.) Neena Gupta, CGHS, Delhi, 20-9-98 (A/N) —21-9-98 (F/N)
2. Dr. (Smt.) Sudha Murria, GNCT of Delhi, 21-9-98 —21-9-98
3. Dr. (Smt.) Shakuntla Gupta, GNCT of Delhi, 21-9-98 (F/N)—21-9-98 (F/N)
4. Dr. Raman Kumar Mehta, CGHS, Delhi, 21-9-98 —21-9-98
5. Dr. Rajendra Prasad, GNCT of Delhi, 21-9-98 (F/N) —21-9-98 (F/N)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 32012/2/2000-CHS. I.—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following officers belonging to the General Duty Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No., Name of the Officer, Organisation, Date of relinquishment of charge as SMO—Date of assumption of charge as CMO

1. Dr. Kamal Thareja, GNCT of Delhi, 30-7-97 (A/N)—31-7-97 (F/N)
2. Dr. Anand Swarup, GNCT of Delhi, 1-9-97 (F/N)—1-9-97 (F/N)
3. Dr. Puja Sharma, CGHS, Delhi, 6-7-97 (A/N)—7-7-97 (F/N)
4. Dr. Manoj Jain, CGHS, Delhi, 24-3-98 (F/N)—24-3-98 (F/N)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 12th January 2001

No. A. 12025/116/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anwar Salih K. K. to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 20-5-99 until further orders. Dr. Anwar Salih K. K. is posted as Medical Officer under Lakshadweep Administration.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/137/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Niraj Kumar Sinha to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 7-3-2000 until further orders. Dr. Niraj Kumar Sinha is posted as Medical Officer Govt. of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 15th January 2001

No. A. 12025/118/97-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jag Mohan Lal to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 22-5-98 until further orders. Dr. Jag Mohan Lal is posted as Medical Officer Central Govt. Health Scheme Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy

No. A. 12025/77/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Himansu Sekhar Mahapatra to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 7-7-1999 until further orders. Dr. Himansu Sekhar Mahapatra is posted as Medical Officer Govt. of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy

No. A. 12025/71/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ravi Venkat Sai Kumar to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 3-3-2000 until further orders. Dr. Ravi Venkat Sai Kumar is posted as Medical Officer Central Govt. Health Scheme, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy

New Delhi, the 10th January 2001

No. A. 12025/36/98-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Krishnamurti Kamble to the Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Director (Ortho.) in Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur with effect from the forenoon of the 17th November, 1999 and until further orders.

N. K. PUSHPAKARAN, Under Secy

New Delhi, the 17th January 2001

No. A. 38012/7/2000-CHS.II.—Consequent on his proceeding on voluntary retirement Dr. H. S. R. Murthy of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer under the CGHS, Bangalore on the afternoon of 7th Sept., 2000.

U. C. NANGIA, Under Secy.

The 19th January 2001

No. A. 35014/4/2000-CHS.IV.—Consequent on his proceeding on deputation on foreign assignment with the Govt. of Saudi Arabia, Dr. Yogesh Chandra Porwal, an officer of the Specialist Grade II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service relinquished charge of the post of Medical Specialist GNCT, Delhi with effect from the afternoon of 4-11-2000.

U. C. NANGIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 8th December 2000

No. A. 19013/4/2000-Admn.I.—Consequent upon his transfer from the Ministry of Shipping to the Department of AH & Dairying vide Department of Personnel & Training's O.M.

No. 31/17/2000-E.O. (MM-I) dated 14-11-2000 and his assuming the charge of the post of Under Secretary w.e.f. 01-12-2000 (F/N). Shri R. K. Sharma, Under Secretary, is taken on the strength of the Department of AH & Dairying w.e.f. 01-12-2000 (F/N).

J. K. PRASAD, Dy. Secy

New Delhi, the 11th December 2000

No. A. 19013/5/2000-Admn.I.—Consequent upon her transfer from the Ministry of Social Justice & Empowerment to the Department of AH & Dairying vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 31/17/2000-E.O. (MM-I) dated 14-11-2000 and his assuming the charge of the post of Under Secretary w.e.f. 05-12-2000 (F/N), Smt. Radha Mani, Under Secretary, is taken on the strength of the Department of AH & Dairying w.e.f. 05-12-2000 (F/N).

R. K. SHARMA, Under Secy

The 11th December 2000

No. 19011/158/93-Admn.I.—In pursuance of the Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No. 12016/5/98-ISS dated 08-11-2000 and his assuming the charge of the post of Joint Director w.e.f. 09-11-2000 (F/N), Shri R. N. Singh, Grade III (STS) of ISS, is promoted to the Junior Administrative Grade (JAG) of ISS in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 on adhoc basis w.e.f. 09-11-2000 (F/N).

Consequent upon his adhoc promotion to the JAG of ISS in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 the pay of Shri R. N. Singh is fixed at Rs. 12,750/- w.e.f. 09-11-2000 (F/N) in the post of Joint Director as per provisions of FR 22 I (a) (i). Shri R. N. Singh, Jt. Director, is entitled to draw personal pay of Rs. 275/- on account of undergoing sterilisation operation.

R. K. SHARMA, Under Secy

New Delhi, the 18th December 2000

No. 3/4/96-Fy Admn.—The President is pleased to appoint Sh. A. Ravichandran in the post of Senior Instructor (Marine Engineers) group 'A' gazetted in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin with effect from the forenoon of 28-11-2000 until further orders.

K. P. MAIHOTRA, Under Secy

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi-110001, the 9th January 2001

No. 3-7/98-Adm.—On the basis of UPSC's recommendation vide their letter No. F. 1/416/98-R-IV dated 3-8-2000 and subject to the conditions mentioned in the officer of appointment, the President is pleased to appoint Dr. Saroj Kumar Adhikari as Assistant Director in the Ministry of Human Resource Development, Department of Women & Child Development in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 5th January, 2001.

R. S. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 29th December 2000

No. 13-15/2000-SPG.—The following officers of Indian Postal Service Group 'A' will retire from Government service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31-12-2000 (A/N).

Sl. No., Name of the Officers & Present Posting  
(S/Sh.)

1. P. R. Gatkwad—Maharashtra Circle
2. V. R. Joshi—Karnataka Circle
3. T. R. Jatav—U. P. Circle
4. S. P. Singh—M. P. Circle
5. M. Dune Dune—M. P. Circle

A. K. DASH, Director (Staff)

## MINISTRY OF RAILWAYS

## (RAILWAY BOARD)

New Delhi the 5th December 2000

No. E(GP)/99/1/54.—The President is pleased to approve of Shri M. Parangusam, a Group 'B' officer of Electrical Engg. Department of Southern Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Elect. Engineers with effect from 28-07-2000 on that Railway.

D. P. TRIPATHI, Secy.  
Railway Board

The 7th December 2000

No. E(GP)/88/1/49.—The President is pleased to approve of Shri S. K. Arya, a Group 'B' officer of Civil Engineering Department of Eastern Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Engineers with effect from 27-11-89 on that Railway.

D. P. TRIPATHI, Secy.  
Railway Board

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

## (ESTT I SECTION)

New Delhi, the 16th January 2001

No. A-12026/3/98-F.I.—In continuation of this Ministry's Notification of even no. dated 25th July, 2000, the President is pleased to extend the term of adhoc appointment of S/Sh. Lalit Kumar, D. S. Bajaj and Ram Kishan as Principal Private Secretary for a period upto 30-6-2001 or till regular officers become available, whichever is earlier.

REENA SETHI, Under Secy.

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th January 2001

No. A. 12022/1/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sharda Ali Khan, a regular Grade I Officer of the CSS as Deputy Secretary on Personal/ad-hoc basis in the Ministry of Civil Aviation in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 w.e.f. the F/N of 1-1-2001, in pursuance to the Rotation Policy as formulated by the Department of Personnel & Training.

2. On her appointment as Deputy Secretary on personal/ad-hoc basis in the Ministry, Smt. Sharda Ali Khan is posted in the Ministry (Main).

K. S. PANWAR, Under Secy.

No. A. 12022/1/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. S. Narendra, a regular Grade I Officer of the CSS as Deputy Secretary on Personal/ad-hoc basis in the Ministry of Civil Aviation in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 w.e.f. the F/N of 1-1-2001, in pursuance to the Rotation Policy as formulated by the Department of Personnel & Training.

2. On her appointment as Deputy Secretary on personal/ad-hoc basis in the Ministry, Smt. S. Narendra is posted in the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) as Director (Admn.) in the scale of pay of Deputy Secretary of CSS.

K. S. PANWAR, Under Secy.

No. A. 12022/1/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ram Dhari as Under Secretary in the Ministry of Civil Aviation in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. the F/N of 1-1-2001, in pursuance to the Rotation Policy as formulated by the Department of Personnel & Training.

2. On his appointment as Under Secretary Shri Ram Dhari is posted in the Dte. General of Civil Aviation (DGCA) as Dy. Director (Admn.) in the scale of pay of Under Secretary of CSS.

K. S. PANWAR, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 18th January 2001

No. 2/2001. (F. No. A-32013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri G. L. Mittal, an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the grade of Chief Engineer/Member Secretary (Regional Electricity Boards) in the scale of pay of Rs. 5900-6700 (Pre-revised), of the same service in the Central Electricity Authority with effect from 08-12-2000 (Forenoon) until further orders.

S. N. BURMAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th January 2001

No. 06/2001 (File No. 3/13/99-Estt.I.)—The President is pleased to appoint, on promotion, on regular basis, Shri P. C. Mathur, a Senior Administrative Grade officer of Central Water Engineering (Group 'A') Service as Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna, in the Higher Administrative Grade of the same service in the scale of pay of Rs. 22,400-24,500/- w.e.f. 19-12-2000 (afternoon), until further orders.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th January 2001

No. A-22012/1/2000-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri J. P. Pati (CSS) as Joint Secretary in the Ministry of Labour with effect from the afternoon of 5th January, 2001 until further orders.

S. VENUGOPALAN, Under Secy.

प्रकाशक, भारत सरकार मुद्रालय, करीदाबाद द्वारा मुद्रित

एष प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001

